



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 130(अ).—** जबकि मैसर्स जेट एयरवेज वी737-800 विमान वीटी-जेएफए उड़ान 9डब्ल्यू-555 (दोहा-कोचीन) के प्रचालन के दौरान दिनांक 18.8.2015 को त्रिवेन्द्रम में गंभीर घटना का शिकार हो गया।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस गंभीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गंभीर घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निर्णय लिया है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए एक्स जोसेफ, उप निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) श्री जसवीर सिंह लरहगा, सहायक निदेशक, एएआईबी सचिव के रूप में (कार्यस्थल (ऑन जॉब) प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए समिति के साथ संबद्ध करने के लिए)

(ii) कैप्टन शरद डोगरा, सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15029/112/2015-डीजी]

बी एस भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2015

**S.O. 130(E).**— Whereas M/s Jet Airways B737-800 aircraft VT-JFA met with a serious incident at Trivandrum on 18.08.2015 while operating flight 9W-555 (Doha-Cochin).

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Shri A X Joseph, Deputy Director, AAIB with following members:

- (i) Shri Jasbir Singh Larhga, Assistant Director, AAIB as Secretary (to associate with the committee for purpose of on job training)
- (ii) Capt. Sharad Dogra, as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV-15029/112/2015-DG]

B. S. BHULLAR, Jt. Secy.